HEIDELBERGCEMENT

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Registered Office 2nd Floor, Block B, DLF Cyber Greens, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana 122002, India Phone +91-124-4503700 Fax +91-124-4147698 Website: www.mycemco.com

HCIL: SECTL:SE:2024-25 01 August 2024

BSE Ltd. Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Scrip Code:500292

National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Trading Symbol: HEIDELBERG

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement

This is to inform that the Company has published Unaudited Financial Results for the 1st quarter ended 30 June 2024 in newspapers pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Please find enclosed copies of newspaper advertisement published in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) on 01 August 2024.

The above information will also be made available on the website of the Company: www.mycemco.com

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For HeidelbergCement India Ltd.

Ravi Arora Vice President- Corporate Affairs & Company Secretary

Encl.: a.a.





Date of assumption

of office of Director

27th July 2024

29th July 2024

(S. K. Dash)

Company Secretary

mycem

BALU FORGE INDUSTRIES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS AMAZE ENTERTECH LIMITED) CIN: L29100MH1989PLC255933

Read. Office: 506 Fifth Floor, Imperial Palace 45, Telly Park Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069 ite: www.baluindustries.com Email Id:compliance@baluindustries.com. (M):- 86550 7557

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results For the Quarter ended 30th June 2024. (₹ In lacs)				
	Quarter	Quarter	Quarter	Year
Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1 Total Income from Operations	17,636.73	16,555.38	11,249.21	57,027.05
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,				
Exceptional and/or Extraordinary items#)	4,191.45	3,461.39	1,906.57	11,384.30
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	4,191.45	3,461.39	1,906.57	11,384.30
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	3,416.71	2,827.88	1,667.01	9,367.34
5 Total Comprehensive Income for the period				
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	0.440.00	0.007.05	4 007 00	0.070.00
and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,412.20	2,827.85	1,667.38	9,370.06
6 Equity Share Capital	10,259.19	10,259.19	8,336.49	10,259.19
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the				
				45,037.14
previous year. 8 Earnings Per Share				45,037.14
(for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:	3.33	2.76	2.00	9.80
2. Diluted:	3.26	2.74	2.00	9.74
Notes:1 Additional Information on Standalone F			, <u> </u>	
Total Income from Operations	12,418.28	11,702.52	6,976.89	39,870.98
2 Net Profit / (Loss) for the period before tax	3,180.47	2,706.22	1,270.47	8,731.96
3 Net Profit / (Loss) for the period after tax	2,405.72	2,072.21	1,030.91	6,714.50

2,405.72 2,072.21 1,030.91 6,714.50 Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The fu format of the Quarterly Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity vi ww.bseindia.com, www.nseindia.com and www.baluindustries.com.

For Balu Forge Industries Limite (Formerly Known as Amaze Entertech Limited

Jaspalsingh Chandoc Managing Director DIN 00813218

Date : 30 July 2024

यूनियन बैंक Union Bank

Central Office: Union Bank Bhayan, 239, Vidhan Bhayan Marq, Nariman Point, Mumbai – 400021 **ELECTION OF TWO SHAREHOLDER DIRECTORS** Pursuant to the Notice of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Bank dated 14th June 2024, the Bank received Four valid nominations for election of Two directors on the Board of UNION BANK OF INDIA from amongst shareholders other than the Central Government, as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking

As per the provisions of Regulation 66 of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, an election was held at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank on 26th July 2024 and the following candidates got the maximum votes and were declared elected as Directors for a period of three years

Area of expertise

Banking Finance

and Economics

Information

Technology

expert and has

Board experience

prior Banking

Address

C-279 Panache Valley

Off Shahstradhara Road Dehradun - 248013 Uttarakhand

Cascade Bungalow Society

Wakad Hiniewadi Road

Maharashtra - 411 057

(Kulhan Village)

Plot No. 8/9.

Wakad, Pune,

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act. 1980.

as per following details

Kandpal

Place · Mumbai

Date: 26.07.2024

Name of the Shareholder

(in alphabetical order)

Shri Prakash Chandra

Smt. Priti Jay Rao

GAYATRI Hyderabad-500082, Telangana, Tel: 040-40024262 Email: cs@gayatrihighways.com Web: www.gayatrihighways.com CIN: L45100TG2006PLC052146

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting ('e-AGM') of the members of the Company is heduled to be held on Thursday, 26th September, 2024 at 3:30 P.M. through Video Conference ('VC')/Othe Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (Listing Regulations), read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022, 10/2022 and 09/202 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 05th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 respectively, (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circulars dated 12th May, 2020 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023 and 07th October, 2023 (collectively referred to as 'SEB Circulars'), to transact the business as set out in the Notice convening the 18th e-AGM. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of 18th e-AGM and Annual Report for

the FY 2023-24 will be sent to all the members through electronic mode only to whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The Notice of $18^{
m th}$ e-AGM and Annual Report for the F) 2023-24 will also be made available on the company's website www.gayatrihighways.com and on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and National Stock Exchange of India Limited a www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar & Transfer Agent ('RTA'), KFin Technologies Limited at www.kfintech.com (Formerly known as KFin Technologies Private Limited).

Shareholders who are holding shares in Physical Form and have not registered their email addresses with the Company are requested to send an email to Company's email id: cs@gayatrihighways.com or to the Company's RTA email id : <u>einward.ris@kfintech.com</u>. E-mail communication should contain all demographic details of the shareholde viz., Name, postal address, email-id, mobile number in addition to Folio no., share certificate number and distinctive numbers. Scanned copy of PAN and Aadhaar Card must be attached to the e-mail being sent as above

Shareholders holding shares in dematerialized form and who have not registered their email addresses are equested to register/update their email address with their Depository Participant(s).

The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited as Authorised Agency for providing remote voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolution(s) set out in the Notice of the $18^{
m h}$ e-AGM. The login credentials for casting the votes through 'remote e-voting'/'e-voting' during the AGM, for the shareholders holding shares in physical form, dematerialised form and for shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in detail in the Notice of 18th e-AGM

Place: Hyderabad Date: 31st July, 2024 For GAYATRI HIGHWAYS LIMITED Sd/- P. Raj Kumar **Company Secretary**

NATIONAL PEROXIDE LIMITED (formerly known as NPL CHEMICALS LIMITED)

Registered Office: Neville House, J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 CIN No: U24290MH2020PLC342890

Tel No: (022) 66620000 ● Website: www.naperol.com ● E-mail: investorrelations@naperol.com **EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER JUNE 30, 2024**

		Standalone				
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Unaudited	Year ended 31.03.2024 Audited		
1.	Total Revenue from Operations	7,398.85	7,951.79	33,298.62		
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	681.71	607.81	2,151.38		
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	681.71	607.81	2,151.38		
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	508.37	451.93	1,679.03		
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	514.72	458.39	1,702.86		
6.	Paid Up Equity Share Capital (face value of ₹10/- each)	574.70	574.70	574.70		
7. 8.	Other Equity Earnings per share (before and after extraordinary items)	-	-	35,321.78		
	(face value of ₹ 10/- each) (Not annualised)	0.05	7.06	20.22		
	(a) Basic (b) Diluted	8.85 8.85	7.86 7.86	29.22 29.22		

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and the Company' website (www.naperol.com).
- The said results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on July 30, 2024 and July 31, 2024 respectively

For National Peroxide Limited (formerly known as NPL Chemicals Limited)

Place : Mumbai Date : July 31, 2024

(Rajiv Arora) **Chief Executive Officer and Directo** DIN: 08730235

NAPEROL INVESTMENTS LIMITED

(formerly known as National Peroxide Limited) Registered Office: Neville House, J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 CIN: L66309MH1954PLC009254 ● Tel No: (022) 66620000

● Website: www.naperolinvestments.com ● E-mail: secretarial@naperol.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

				(₹ in Lakhs)
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited
1.	Total Revenue from Operations	28.09	27.60	191.09
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(36.48)	(42.80)	(60.96)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	(36.48)	(42.80)	(60.96)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	(32.81)	(32.11)	(36.55)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	27,662.60	14,216.81	49,799.96
6.	Paid Up Equity Share Capital (face value of ₹10/- each)	574.70	574.70	574.70
7.	Earnings per share (before and after extraordinary items) (face value of ₹ 10/- each) (Not annualised)			
	(a) Basic	(0.57)	(0.56)	(0.64)
	(b) Diluted	(0.57)	(0.56)	(0.64)

Notes:

Date: 31.07.2024

- . The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.naperolinvestments.com).
- The said results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on July 30, 2024 and July 31, 2024 respectively

For Naperol Invesments Limited (formerly known as National Peroxide Limited)

Ness N Wadia Place : Mumbai DIN: 00036049 Date : July 31, 2024



VODAFONE IDEA LIMITED

CIN: L32100GJ1996PLC030976 Registered Office: Suman Tower, Plot No. 18, Sector-11, Gandhinagar - 382 011, Gujarat Email: shs@vodafoneidea.com Website: www.myvi.in Tel: +91-79-66714000 Fax: +91-79-23232251

NOTICE OF THE TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that Twenty Ninth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Vodafone Idea Limited ('the Company') will be held on Wednesday, the 28th day of August, 2024 at 4:00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder ('Act'); provisions of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs from time to time and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI, without the physical presence of the Members

In compliance with above circulars, the Notice of the 29th AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to those members electronically whose email IDs are registered with the Depository Participant(s) / Registrar and Transfer Agent i.e. Bigshare Services Pvt. Ltd. / the Company.

The Notice of 29th AGM and the Annual Report for Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website www.myvi.in. websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') https://www.evoting.nsdl.com. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate remote e-voting and evoting during the AGM.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered / updated their e-mail ID with the Company are requested to register/update their email ID with Bigshare Services Pvt. Ltd. by sending requests at investor@bigshareonline.com in Form ISR-1 along with documents mentioned in the Form or by logging onto https://www.bigshareonline.com/InvestorLogin.aspx.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email IDs with their respective

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and voting at the AGM shall be provided in the Notice of the AGM.

For Vodafone Idea Limited

Pankaj Kapdeo **Company Secretary**

Cyber City, Phase-III Gurugram, Haryana -122002 Tel.: Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698

Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30 06 2024

SI.	Particulars		Year Ended		
No.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	5,321.9	5,965.5	5,956.4	23,657.8
2	Other income	121.3	138.0	133.8	545.2
3	Total income (1+2)	5,443.2	6,103.5	6,090.2	24,203.0
4	Expenses				
	a. Cost of materials consumed	1,054.0	1,153.3	1,085.3	4,326.3
	b. Changes in inventories of finished goods and work-in-progress	(183.3)	(142.1)	28.1	293.7
	c. Employee benefits expense	394.6	448.5	360.4	1,526.8
	d. Finance costs	85.6	85.4	91.4	347.6
	e. Depreciation and amortisation expense	281.4	283.4	270.0	1,096.7
	f. Power and fuel	1,442.9	1,680.4	1,758.7	6,697.2
	g. Freight and forwarding expense	817.7	915.6	872.6	3,500.2
	h.Other expenses	1,015.6	1,020.9	922.5	4,146.4
	Total expenses (a to h)	4,908.5	5,445.4	5,389.0	21,934.9
,	Profit before exceptional items & tax (3-4)	534.7	658.1	701.2	2,268.1
;	Exceptional items	_	_	-	_
,	Profit before tax (5-6)	534.7	658.1	701.2	2,268.1
3	Tax expense				
	Current tax	151.7	204.2	190.3	671.5
	Deferred tax	(16.0)	(27.7)	(12.3)	(80.9)
)	Net Profit for the period (7-8)	399.0	481.6	523.2	1,677.5
0	Other comprehensive income	100000000		0.0000.0000.000	10.00.00.00.00.00
	i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	4.4		(9.1)
	ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	(1.1)	-	2.3
	Total Other comprehensive income (net of tax)		3.3		(6.8)
1	Total Comprehensive Income after tax (9+10)	399.0	484.9	523.2	1,670.7
2	Paid-up equity share capital				
	(Face Value is ₹10 per share)	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2
3	Other Equity				12,432.1
14	Earnings per share of ₹10 each-Not annualised				8553
	(a) Basic (in ₹)	1.76	2.13	2.31	7.40
	(b) Diluted (in ₹)	1.76	2.13	2.31	7.40

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 31 July 2024.

The figures for the guarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the unaudited published year-to-date figures upto 31 Decembe 2023 which were subjected to limited review.

Figures of the previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary

For and on behalf of the Board of Directors (Joydeep Mukherjee Managing Director DIN: 06648469

INDRAYANI BIOTECH LIMITED | BL | Indrayani

Place: Gurugram

Date: 31 July 2024

CIN: L40100TN1992PLC129301 Block 1, Module No. 33, 3rd Floor, SIDCO Electronic Complex, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032. | www.indrayani.com | info@indrayani.com |

Notice of the 32nd Annual General Meeting and E-voting Information and Book Closure Dear Members. Notice is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, August 22, 2024 a**

3.00 PM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM dated July 27, 2024 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and its rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time to time. Further, in accordance with the MCA/SEBI Circular(s), the Notice of AGM/Annual Report for Financial Year 2023-24 has bee sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, July 26, 2024 The 32rd AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website www.indrayani.com and the website of Stock Exchange in which the shares o the Company are listed i.e., Bombay Stock Exchange (BSE)(www.bseindia.com) and on the website of e-voting service provide e. Link Intime India Private Limited (www.instavote.linkintime.co.in).

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only by following procedure as se

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system ("remote e-voting") provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL). Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM is provided in the Notice of the Annual General Meeting. The Board of Directors of the Company has appointed M/s. KRA & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner and for the purpose of

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through remote e-voting process on the 32rd AGN

1	Date of completion of dispatch of Notice / Annual Report	Wednesday, July 31, 2024
	Date and time of Commencement of remote e-voting	Monday, August 19, 2024 at 9.00 AM (IST)
3	Date and time of end of remote e-voting	Wednesday, August 21, 2024 at 5.00 PM (IST)
	(remote e-voting will not be allowed beyond this date and time)	
4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	Thursday, August 15, 2024

Those members who are present in the AGM through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OVAM but shall not be entitled to cast their votes again. person whose na me is recorded in th ister of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the

Depositories as on Thursday, August 15, 2024 (cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by following the instructions given in the 32" AGM Notice. If members have already registered with LIIPL for remote e-voting then he/she car

use his/her existing user ID and password for casting the votes. In case the Member's email ID is already registered with the Company/ its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"

Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address to those Members. Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company/ Depositories, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by following the procedure set out in the 32rd AGM

Members who wish to register their email address may follow the below instructions:

- a. Members holding shares in Demat form are requested to register / update the details in their Demat account, as per th process advised by their concerned Depository Participant. b. Members holding shares in physical form are requested to register / update the details by filling the prescribed Form ISR
- 1 and other relevant forms with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, b sending email to coimbatore@linkintime.co.in. Members may download the prescribed forms from the company website www.indrayani.com. in case of any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e voting Manual available at https://instavote.linkintime.co.in.under.Help.section.or.send.an.email.to.enotices@linkintime.co.in.c

only manufar available at https://mistarvote.inin/minter.co.informer help section of send an ential of enduces@ininformer.co.in or ontact on: - Tel: 022 4918 6000. In case members have any grievances regarding login / e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: -Tel: 022 4918 6175. This public notice is also available in the Company's website viz. www.indrayani.com and on the website of Bombay Stoci

Exchange (www.bseindia.com), where the shares of the Company are listed. Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 15, 2024 to Thursday, August 22, 2024 (both days inclusive) for the

For For Indravani Biotech Limited Date: 31.07.2024 Kasiraman Sayee Sunda Place: Chennai Managing Director (DIN: 01295584

ABHEY OSWAI Extract of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

Place: Mumbai

Dated: July 31, 2024

Oswal Agro Mills Limited CIN: L15319PB1979PLC012267

Corporate Office: 7th Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marq, New Delhi-110001;

			(Amou	nt in ₹ Lakh)
	Standalone			
Boothankon		Quarter End	led	Year Ended
Particulars	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	45.67	61.50	42.17	186.73
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	230.96	180.18	65.40	393.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	230.96	177.65	65.40	390.83
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	171.55	(33.82)	29.86	175.36
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	173.41	(26.48)	29.90	182.81
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	47,242.26
Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)	0.13	(0.03)	0.02	0.13

Note:-The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Standalone Unaudited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.oswalagromills.com. For Oswal Agro Mills Limited

> **B N Gupta CEO** and Whole Time Director DIN: 00562338

Extract of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

		Con	solidated	
		Quarter Ende	ed	Year Ended
Particulars	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	45.67	61.50	42.17	186.73
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	230.96	180.18	65.40	393.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	230.96	177.65	65.40	390.83
Profit for the period/Year after tax but before share of net profit of investments accounted for using equity method	171.55	(33.82)	29.86	175.36
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	378.35	114.20	428.46	457.34
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	382.90	132.32	428.53	475.60
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	70,343.64
Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)	0.28	0.09	0.32	0.34

Note:- The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Consolidated Unaudited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and also on the Company's website www.oswalagromills.com For Oswal Agro Mills Limited

> B N Gupta CEO and Whole Time Director DIN: 00562338

(Amount in ₹ Lakh)

Date: 31.07.2024

Regd. Office: Near Jain Colony, Vijay Inder Nagar, Daba Road, Ludhiana - 141 003 (Punjab) | Contact : 0161- 2544313 ; website: www.oswalagromills.com; Email ID: oswal@oswalagromills.com

ारीखः 01.08.2024, स्थानः दिल्ली

प्रधान कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापित बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई-400013 क्षेत्रीय कार्यालयः विशेष परिचालन विभाग, 6 गुलाब भवन, भूतल, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

र्ड-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन बैंक के पास गिरवी पर रखी गई अचल सम्पत्तियं की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

. तद्द्वारा जन साधारण एवं विशेष रूप से कर्जदार/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि के साथ ब्यार रापुंचा जा तिकार के राज्य की राज्य की सामिताला के पूर्वा के किया के अधिक के अधिकार के अधिकार के आध में उत्तिक के अधिकार के आध मों उत्तिक के अधिकार के अधिकार के अधिकार के आध मों उत्तिक के अधिकार के अधिक के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठिव प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13(2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित सम्पत्तियों पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया था तथा चूंकि बकाया राशि चुकता करने में विफल होने की वजह से अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया रकमों की वसूली का प्रस्ताव पेश करता है। वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के जिए ई-नीलामी के जिए नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों की बिक्री संचालित की जाएगी।

क्र.			<u> </u>	म/ईएमडी/ईटीसी का ब्यौरा		
	शाखा एवं खाता/	सम्पत्ति के गिरवीदाता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार रकम	आरक्षित मूल्य	निरीक्षण की
₹і.	कर्जदार का नाम	एवं गारंटीदाताओं का नाम		मांग सूचना की तारीख	ईएमडी बोली वृद्धि रकम	तारीख एवं समय
1.	एचडीएफसी बैंक लि., दिल्ली कवाना क्लॉदिंग प्रा. लि. डब्ल्यूसीटीएल खाता सं. 85821250, 85821252 एवं 85824078 एवं जीईसीएल खाता सं. 8366073	गिरवीदाता/ गारंटीदाताः श्री दीपू गुप्ता तथा रश्मि गुप्ता	मद नं. 1: यूनिट सं. 65, भूतल, यूनियर्सल ट्रेड टावर, मीजा टिकरी, संकटर-49, गुरुग्राम-122001, ऊपर उल्लेखित सम्पत्तियां मैसर्स आरयीएस इंडस्ट्रीण के खाते में क्रॉस कोलेटरलाइज्ड है	रु. 15,54,73,805.24 मांग सूचना की तारीख: 23-02-2023 दिनांक 17.02.2023 को बकाया साथ में ऋण खाता के अधीन सम्पूर्ण एवं अंतिम मुगतान की तरीख तक आगे के व्याज के साथ लागत एवं व्यय	अपराह्न 02.30 बजे से बोली स्वीकार करन	09.08.2024 सुबह 10.30 बजे से पूर्वा. 11.30 बजे तक /समयः 16.08.2024 अपराहन 03.30 बजे तक ने की अंतिम तारीखः पराहन 04.00 बजे तक
2.	एवडीएफसी बैंक लि., दिल्ली 1) कवाना क्लॉरिंग प्रा. लि. डब्ल्यूसीटीएल खाता सं. 85821250, 85821252 एवं 85824078 एवं जीईसीएल खाता सं. 8366073	गिरवीदाता/ गारंटीदाताः श्री दीपू गुप्ता	मद नं. 2: फ्लैट नं. सी-1401, चौदहवीं मंजिल, अंतरिक्ष नेचर में, रिहायसी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 110, ब्लॉक ए, सेक्टर 52, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. में निर्मेत	रु. 15,54,73,805.24 मांग सूचना की तारीख: 23-02-2023 दिनांक 17.02.2023 को बकाया साथ में ऋण खाता के अधीन सम्पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तरीख तक आगे के ब्याज के साथ लागत एवं व्यय	रू. 4,10,00,000/- रू. 41,00,000/- रू. 1,00,000/- रू. 1,00,000/- रू. नीलामी की तारीख पूर्वाहन 11.30 बजे से बोली स्वीकार करर	09.08.2024 अप. 01.30 बजे से अप. 2.30 बजे तक /समयः 16.08.2024 दोपहर 12.30 बजे तक ने की अंतिम तारीखः अप. 04.00 बजे तक
3.	एचडीएफसी बैंक लि., दिल्ली 3) कवाना क्लॉरिंग प्रा. लि. डब्ल्यूसीटीएल खाता सं. 85821250, 85821252 एवं 85824078 एवं जीईसीएल खाता सं. 8366073	गिरवीदाता/ गारंटीदाताः श्री दीपू गुप्ता	फ्लैट नं. एजीएफ-002, मूतल साथ में बेसमेंट, अंतरिक्ष ग्रीन, प्लॉट नं. एफ-7, सेक्टर-50, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में निर्मित	रु. 15,54,73,805.24 मांग सूचना की तारीख: 23-02-2023 दिनांक 17.02.2023 को बकाया साथ में ऋण खाता के अधीन सम्पूर्ण एवं अंतिम मुगतान की तरीख तक आगे के ब्याज के साथ लागत एवं व्यय	रु. 1,89,00,000/- रु. 18,90,000/- रु. 1,00,000/- ई-नीलामी की तारीख सुवह 10.00 बजे से पूर्व स्वीकार करने की अंतिम	09.08.2024 अप. 3.30 बजे से अप. 4.30 बजे तक /समयः 16.08.2024 ह्न 11.00 बजे तक बोली तारीखः 14.08.2024 को
	कृत अधिकारी का नाम/दूरभाष नं./ईमेल एवं शर्ते :	। आईडीः श्री सोमनाथ पा	ण्डे, मोबाइलः 9310110525, <u>somnath.p</u>	andey1@hdfcbank.com	अप. 04.0	00 बजे तक

म एवं रातः : ई-नीलामी **"जैसे है जहां है, जैसे है जो है, वहां जो कुछ है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर"** आयोजित की जाएगी।

इच्छुक बोलीदातागण अपने ईएमडी का विवरण तथा वस्तावेज लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड के जिरए वेब पोर्टलः https://hdfcbank.auctiontiger.net (https://hdfcbank.auctiontiger.net पर अपने नाम का पंजीयन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करना होगा। ईएमडी निम्नलिखित खाता : 57500000904261, खाता का नाम : डीएफएसओ ट्रॉजिसटरी एकाउंट, लाभभोगी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएसभी कोड: HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस के जिरए अथवा एचडीएफसी बैंक लि. खाता नं .5750000904261 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के जिरए ऊपर सारणी में उल्लेखित तारीख अधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में इस सम्पत्ति पर बैंक के रिकार्ड के अनुसार यथा प्रकट के अलावा कोई भी ऋण भार यानी संविधिक बकाया जैसे सम्पत्ति कर, सोसाइटी बकाया नहीं है। हालांकि, बैंक कोई भ

जावकुर जिन्नार जिन्ना के जानिया ने कुल प्रतिन्त के क्यांचार के जाति के जाति के कि लिए जिन्नेदार नहीं होगा तथा यह केता की जिन्नेदारी होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सम्मितिया के ऋणभार संपत्ति के स्वत्याधिकार के संबंध में निजी स्वतंत्र जांच करवा लेनी होगी एवं उसका निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना होगा। सम्मित का निरीक्षण सिर्फ ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय पर की जा सकती है। इच्छुक बोलीदाता जो कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना होगा। सम्मित का निरीक्षण सिर्फ ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय पर की जा सकती है। इच्छुक बोलीदातागण जो ईएमडी जमा कर चुके एवं लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड सृजन करने, डेटा अपलोडिंग, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए सहायता चाहने वाले बोलीदाता से प्रदाता मैसर्स सी 1

इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 301, गल्फ पेट्रो केम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज 2, गुडगाँव, हेत्यलाइन नं : 0124-4302020/21/22/23/24, श्री मिथलेश कुमार मोबाइल: 7080804466, हेत्यलाइन ईंगेल आईडी: support@bankeauctions.com से सम्पर्क कर सकते हैं तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी के लिए ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से कार्य दिवसों को काम के घंटे के दौरान (सुबह 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे के बीच) सम्पर्क कर सकते हैं। सर्वोच्च बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन का विषय वस्तु है। अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/रद करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम ए

बाध्यकारी होगा। इच्छुक बोलीदाता को नीलामी वाली सम्पत्ति के संबंध में किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/फोरम/संविधिक निकाय/सरकारी एजेंसियों के समक्ष सभी तरह के मामले/शिकायत (यदि कोई हो) का संज्ञान लेना आवश्यक है तथा बोर्ल

. जमा करने से पहले इस संबंध में स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। (विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें।)

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन 15 दिनों की संवैधानिक बिक्री सूचना

जाए। एतदद्वारा कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं को ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित रकम के साथ अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक खर्चों का भगतान करने हेतु सुचित किया जाता है, अन्यथा सम्पत्ति नीलाम/बिक्री क बकाया राशि, अगर कोई हो, उसे ब्याज एवं लागत के साथ वसूल किया जाएगा। अधिकत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लि



सार्वजनिक सूचना

रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्तागण अपने द्वारा **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** से प्राप्त की गयी ऋण सुविधा के मुलधान एवं ब्याज का प्रतिभुगतान करने में चुक कर चुके हैं और इसीलिए ऋण, अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिए गए हैं। उनके . द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए अनुसार उनके अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जो कि निम्नवर्णित उक्त ऋणकर्ताओं की जानकारी के उद्देश्यों हेतु सूचना के अतिरिक्त हैं, और इसीलिए उक्त ऋणकर्ताओं को उसके बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र.	शाखा का	खाता का	ऋणकर्ता / गारंटर का नाम	एन.पी.ए. तिथि	मांग सूचना की तिथि के
सं.	नाम	नाम	(संपत्ति के स्वामी)		अनुसार बकाया राशि
1	नोएडा	श्री श्याम जेनसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खाता संख्या 151411000 000039	 मैसर्स श्री श्याम जेनसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) श्री रजनीश गर्ग पुत्र श्री महेंद्र कुमार (दिवंगत) विधिक उत्तराधिकारी तथा प्राकृतिक उत्तराधिकारी के माध्यम से (सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता) सुश्री मंजू रानी गर्ग (सह—उधारकर्ता/ बंधककर्ता/गारंटर) 	30/06/2024	₹ 2,07,76,483/-

संपत्ति/यों का विवरण: आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्वामित्वधारक आवासीय निर्मित संपूर्ण एमआईजी फ्लैट सं.–24 के रूप ं द्वितीय तल पर, क्षेत्र मापन 73.18 वर्ग मीटर, सरस्वती एन्क्लेव कोऑपरेविट ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के लेआउट प्लान i, भूखंड सं.–26/3 पर, वर्तमान में सरस्वती एन्क्लेव अपार्टमेंट, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली – 110085 में स्थित, विक्रय विलेख दिनांकित 09/12/2021 जो उप–रजिस्ट्रार कार्यालय–6, नई दिल्ली के माध्यम से पंजीकृत है जिसका पंजीकरण / प्रलेख सं. 12214 है तथा संपत्ति निम्नानुसा परिसीमित है .– पूर्व– 18 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर– भूखंड सं. डी–27, पश्चिम– भूखंड सं. बी–53, दक्षिण– 18 मीटर चौड़ी सड़क।

उपरोक्त ऋणकर्ता / ओं तथा / अथवा उनके गारंटरों (जहां कहीं लागू हैं) को सलाह है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के निर्गतन की तिथि से 60 दिवसों की अवधि के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर सूचना के निर्गतन की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के प्रावधानों के अनुसार भावी कार्रवाइयां की जाएंगी

स्थान : दिल्ली

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Regd. Office: 2nd Floor, Block-B, DLF Cyber Greens DLF Cyber City, Phase-III Gurugram, Harvana -122002 Tel. : Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698

mycem

Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

S	tatement of Unaudited Financial Resul	ts for the	Quarter I	Ended 30	.06.2024
			80		₹ in Millio
SI.	Particulars	(Quarter Ende	d	Year Ended
Vo.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited

SI.	Particulars		Year Ended		
No.		30.06.2024	Quarter Ender 31.03.2024	30.06.2023	
		Unaudited	Audited (Refer Note 3)	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	5,321.9	5,965.5	5,956.4	23,657.8
2	Other income	121.3	138.0	133.8	545.2
3	Total income (1+2)	5,443.2	6,103.5	6,090.2	24,203.0
4	Expenses				
	a. Cost of materials consumed	1,054.0	1,153.3	1,085.3	4,326.3
	 b. Changes in inventories of finished goods and work-in-progress 	(183.3)	(142.1)	28.1	293.7
	c. Employee benefits expense	394.6	448.5	360.4	1,526.8
	d. Finance costs	85.6	85.4	91.4	347.6
	e. Depreciation and amortisation expense	281.4	283.4	270.0	1,096.7
	f. Power and fuel	1,442.9	1,680.4	1,758.7	6,697.2
	g. Freight and forwarding expense	817.7	915.6	872.6	3,500.2
	h.Other expenses	1,015.6	1,020.9	922.5	4,146.4
	Total expenses (a to h)	4,908.5	5,445.4	5,389.0	21,934.9
5	Profit before exceptional items & tax (3-4)	534.7	658.1	701.2	2,268.1
6	Exceptional items			12	_
7	Profit before tax (5-6)	534.7	658.1	701.2	2,268.1
8	Tax expense				
	Current tax	151.7	204.2	190.3	671.5
	Deferred tax	(16.0)	(27.7)	(12.3)	(80.9)
9	Net Profit for the period (7-8)	399.0	481.6	523.2	1,677.5
10	Other comprehensive income	1.000195.00587		0000000000	10.000
	i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	4.4	-	(9.1)
	ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	(1.1)	-	2.3
	Total Other comprehensive income (net of tax)		3.3	-	(6.8)
11	Total Comprehensive Income after tax (9+10)	399.0	484.9	523.2	1,670.7
12	Paid-up equity share capital				
	(Face Value is ₹10 per share)	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2
13	Other Equity				12,432.1
14	Earnings per share of ₹10 each-Not annualised				99.01
	(a) Basic (in ₹)	1.76	2.13	2.31	7.40
	(b) Diluted (in ₹)	1.76	2.13	2.31	7.40

Notes:

Place: Gurugram

Date: 31 July 2024

- 1) The Company operates in a single segment i.e. manufacture and sale of Cement
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 31 July 2024.
- 3) The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December 2023 which were subjected to limited review.
- 4) Figures of the previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, whereve necessary.

For and on behalf of the Board of Directors (Joydeep Mukherjee) Managing Director DIN: 06648469

CSL FINANCE LIMITED

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. Office: 716-717, 7th floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301

(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in;

Web: www.cslfinance.in)



PBT 35.54% **Y-O-Y**



CSL Finance

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

			Amo	ount (Rs. in Lak
		Quarter Ended		Year Endec
Particulars	30-June-24	31-March-24	30-June-23	31-March-2
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Total Income from operations	5,108.80	4,664.58	3,529.00	16,564.8
Net Profit/(loss) for the period	2,465.31	2,339.15	1,818.79	8,559.6
(before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)				
Net Profit/(loss) for the period before tax	2,465.31	2,339.15	1,818.79	8,559.6
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)				
Net Profit/(loss) for the period after tax	1,848.83	1,857.41	1,324.79	6,336.2
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)				
Total Comprehensive Income for the period	1,848.83	1,850.48	1,324.79	6,329.2
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other				
Comprehensive Income (after tax)]				
Paid up Equity Share Capital	2,245.55	2,243.62	2,035.47	2,243.6
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	45,239.0
Debt Equity Ratio	1.10	1.06	0.96	1.0
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)				
(for continuing and discontinued operations)-				
Basic	8.12	8.15	6.39	28.6
Diluted	8.03	8.13	6.35	28.2

- 1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2024 filed with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited under Regulation 33 (and other Regulations as applicable) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the above Financial Results is available on the Stock Exchange(s) website viz https://www.nseindia.com/ and www.bseindia.com respectively and on the company's website at www.cslfinance.in
- 2. The above Un-Audited Financial Results were reviewed & recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 31, 2024.
- 3. The above Un-Audited Financial Results have been prepared in accordance with the principles laid down in The Indian Accounting Standards.

On behalf of the Board For CSL Finance Limited Sd/-**Rohit Gupta** (Managing Director) DIN: 00045077

Place: Noida Date: 31.07.2024

50 years of market wisdom, not market whispers.



PAISALO DIGITAL LIMITED

REGD. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019 TEL: +91 11 43518888 WEB: www.paisalo.in CIN: L65921DL1992PLC120483

सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना (पोस्टल बैलेट नोटिस)

सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार (किसी भी वैद्यानिक संबोधन सहित) और ⁄या फिलडाल लागू होने के लिए उसका पुन-अधिनियम) सारत के कम्मनी स्वेद संस्थान द्वारा समय—समय पर जारी सर्विवीय मानक–2 के लागू प्रावधान, कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022, 11/2022 व 9/2023 विनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 15 जुन, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जुनांक, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 08 स्वर्धिबर, 2021, 28 सितंबर, 2023, 28 सितंबर, 28 सितंबर, 2023, 28 सितंबर, 2023, 28 सितंबर, 28 2022 और 25 सितबर, 2023 क्रमशः, मारतीय प्रातमूत और वानमय बाड (सूचाबद्धता दायित्व आर प्रकटाकरण आवायकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 48 और 47 व किसी भी अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुमालन में, पोस्टल बैलेट नोटिस, दिनांकित गुरूवार, 25 जूलाई, 2024 ('नोटिस'' या केवल रिमोट ई-बोटिंग के द्वारा ''पोस्टल बैलेट नोटिस') के संकल्पों में विचारित मामलों के लिए साधारण/ विषेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के शेयरहारकों के अनुमोदन हेतु केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') से मतदान करने के लिए, कंपनी ने बुधवार, 31 जूनाई, 2024 को पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों को भेजा है जिनके ई-नेल पते कंपनी, डिपॉफिटरी के साध्य पंजीकृत है और जिनके सेना (क्रट-ऑफ तिथि) शुक्रवार, 26 जूलाई, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

करपा के राजस्ट पर वाहरा किया विशाजित्य द्वारा राज्य कार्याचा के राजस्ट र पर वाही किया है अपने सदस्यों को रिमोट इलेक्ट्रोनिक वीटिंग सुविद्या (ई-वोटिंग) प्रदान करने के लिए नेषनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस के एक भाग के रूप में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें।

अपना राजनार था अराजनार अपना अपने ऐसे व्यक्ति जो 'कट-ऑफ तिथि' पर सदस्य नहीं है, वे डाक मतपत्र की सूचना को केवल सूचना के उद्देष्य से समझे एक बार प्रस्ताव / प्रस्तावो पर वोट पड़ जाने के बाद, सदस्यों को बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

- रूप रूप प्रमुख जिल्हा है। जिल्हा है ... कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 26 जूलाई, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाल सरस्य केवल ई—वीटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट नीटिस में निर्धारित विषेष व्यवसायो पर अपना वोट
- ई—वोटिंग शुरू होने का दिन, तारीख और समयः गुरूवार, 1 अगस्त, 2024 (सुबह 9 बजे से)
- इन्यांटिंग समाप्त होने का दिन, तारीख और समयः शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 (साय 5 बजे तक) उत्तत तिथि और समय के बाद ई–योटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद एनएसडीएल झ ई–योटिंग प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
- ई—वोटिंग की निष्पक्ष एवं पारदर्षी ढंग से जांच करने के लिए मैसर्स सतीष जादौन एंड ऐसोसिएट के प्रोपराईटर
- रूपनी सिविध श्री सत्तीय कुमार जादीन को संवीक्षक नियुक्त किया गया है। ई- वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रबच्च निदेषक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को सीपेगे। ई-वेटिंग के नतीं को शनिया, 31 अगस्त, 2024 को कंपनी की वेबसाइट www.paisalo.in पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ डालकर घोषित किए जाएंगे।
- ई-वोटिंग के परिणामों की प्रति बीएसई लिमिटेड और नेषनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व इन्यादिन के परिणाना को प्रोप्त परिणान के प्राप्त के आप है। जा दिन है। जा है। जा है। जा है। जा है। जा हिन्द की हिन्द की जाएंगी और बीएमई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेषनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्षित की जाएंगी।
- पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्टॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐर a स्तादियों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cs@paisalo.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं इंडा क मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.paisalo.in पर, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com और नेषनल सिक्योरिटीज डियॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता मोबाइल और केवाईसी विवरण आरटीए / डिपॉजिटरी के सा नरजारका न अपना इमल पता, माबाइल और कंवाइंसी विवरण आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ नहीं किया है, उनसे फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित । पंजीकृत/अपडेट करें:

डीपी के साथ विवरण पंजीकृत/अधतन करनाः यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए है, तो शेयरधारक व डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता, मोबाइल नेबर, बैंक खाता और केवाईसी विवरण पंजीकृत / अधतन करना चाहिए।

कथाइसा ायपण पजाकूंग / अवारा करना था।हर्। आ**रटीए के साथ विरयण पंजीकृत / अवारा करना**ः यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा गया है, तं शेयरबारकों को तुरंत ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को ई-मेल cs@paisalo.in फ निर्धारित आईएसआर-1 जमा करके या कंपनी के पंजीकत कार्यालय में भेजकर पंजीकत /अधतन करन नावार आहुर्साजार- जिमा और या करना क जानून आजूर्य कार्याय में माज्य कराना बाहिए। शैयश्यारक कंपनी की वेबसाइट https://paisalo.in/pdf/2 Relevant-forms/Form_ISFA 4.pdf से निवेषक अनुमाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट https://www.alankit.com/registrar-and-share-transfer-agent से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। -वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य इसे नीचे दिए गये पते / कंपनी /

विवरण	पैसालो डिजिटल लिमिटेड	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
पता	सीएससी, पॉकेट 52, नियर पुलिस स्टेषन, सीआर पार्क, नई दिल्ली—110019	ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स, कंपाउंड, लोअर पावेल, मुंबई–400013
नाम एवं पदनाम	श्री मनेन्द्र सिंह कंपनी सचिव	सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक
दूरभाष	91 11 4351 8888	91 4886 7000, 2499 70000
ई-मेल आईडी	cs@paisalo.in	evoting@nsdl.co.in

- शेयरधारकों को अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसे सर
- शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे होल्डिंग, हस्तांतरणीयता और अन्य संबंधित लाभों में आसानी के लि अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में परिवर्तित करें।

स्थान : नई दिल्ली

वास्ते पैसालो डिजिटल लिमिटे (मनेन्द्र सिंह) कंपनी सचिव



वरूण बेवरेजेज़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ 2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020; दूरभाष +91 11 41706720 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. ३१, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर – ४४, गुरूग्राम — 122002 (हरियाणा); दूरभाष:+91 124 4643100 ईमेलः complianceofficer@rjcorp.in वेबसाइटः www.varunbeverages.com कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC069839

एतद द्वारा कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108, 110 के प्रावधानों व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के संचालन के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य परिपत्र सं 09 / 2023 (सहित लेकिन सीमित नहीं) दिनांक 25 सितम्बर 2023 ("एमसीए परिपत्रो"), सेबी के विनियम 44 (स्चीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर नियमन"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों द्वारा जारी किए गए, यदि कोई हो, एमसीए परिपत्रों के अनुसार कम्पनी ने 30 जलाई 2024 के दिनांक का पोस्टल बैलट सचना (''सुचना'') व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई—वोटिंग निर्देश समेत नीचे दिए गए संकल्पों पर सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु बुधवार 31 जुलाई, 2024 को केवल ई—मेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते कम्पनी या रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आर टी ए) या उनके संबंधित डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (''डीपी'') के पास क्रमशः पंजीकृत है या जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर अथवा जमाकर्ताओं द्वारा संघृत लाभकारी स्वामित्व के रजिस्टर में शुक्रवार 26 जुलाई, 2024 को लिखा होगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.varunbeverages.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज दिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है

To the local Control of the Control			
मद संख्या	प्रस्ताव	विवरण	
1	साधारण प्रस्ताव	कंपनी के इक्विटी शेयरों के उप—विभाजन / विभाजन की अनुमित देने के लिए।	
2	साधारण प्रस्ताव	कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव की अनुमति देने के लिए।	

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में पोस्टल बैलेट फार्म के साथ पोस्टल बैलेट सूचना की वास्तविक प्रतिलिपि और पूर्व-भुगतान किया गया व्यावसायिक लिफाफा सदस्यों को पोस्टल बैलेट के लिए नहीं भेजा गया और सदस्यों से यह प्रार्थना है कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया से ही अपनी सहमति या असहमति को प्रदान करें। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि 1 अगस्त, 2024 (प्रातः 9.00 बजे भारतीय मानक समयानुसार) पर आरंभ होगी और शुक्रवार,

30 अगस्त, 2024 (सायं 5.00 बजे भारतीय मानक समयानुसार) पर समाप्त होगी। रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा उसके बाद वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य एक प्रस्ताव पर वोट डालता है, तो सदस्य को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई—वोटिंग के

लिए विस्तृत निर्देश सूचना में दिए गए है। सदस्यों से अनुरोध है कि सूचना में निर्धारित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़े और सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 सायं 5 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) के कार्यकाल समय की समाप्ति से पहले मतदान करें। सदस्यों के मतदान का अधिकार शुक्रवार 26 जुलाई, 2024 (''कट—आफ—तिथि'') के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयरों

के पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज किया जाता है (उन सदस्यों सहित जिन्हें कम्पनी या डिपॉजिटरी ∕ डिपॉजिटरी प्रतिभागियो के साथ उनका ई–मेल पता पंजीकृत नहीं होगा) केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री कपिल देव तनेजा, कंपनी सेक्रेटरी इन होल-टाइम प्रैक्टिस (CP No. 22944), या उनकी अनुपस्थिति में श्री नीरज अरोडा, कंपनी सेक्रेटरी इन होल–टाइम प्रैक्टिस (CP No. 16186), पार्टनर मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिवों की एक फर्म, नई दिल्ली को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोर्ट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कोई भी सदस्य, कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को धारण करता हो और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद इस सचना को प्राप्त नहीं करता, वह सूचना (जो कि कम्पनी की वेबसाईट www.varunbeverages.com पर उपलब्ध है) में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com पर एक निवेदन भेजें हालाँकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल अथवा सैन्ट्रल डिपौजिट्ररी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

भौतिक रूप से धारित करते हुए	कृपया अपना नाम, फोलियों नबर, शेयर सर्टिफिकेंट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे स्व—सत्यापित) पैन और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, को einward.ris@kfintech.com; या complianceofficer@rjcorp.in पर कंपनी का अनुरोध करें।
डीमैट रूप से धारित करते हए	कृप्या अपने डीपी से संपर्क करें तथा डीपी की सलाह अनुसार प्रक्रिया अपनाकर अपने डीमैट खाते में अपने ई—मेल पते को पंजीकृत करायें।

मौजुदा इक्विटी शेयरों के उप–विभाजन / विभाजन के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि पोस्टल बैलेट के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति लेने के पश्चात निर्धारित की जाएगी।

पोस्टल बैलट के परिणाम सोमवार, 2 सितम्बर, 2024 को या उससे पूर्व कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय में शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पूर्व घोषित कर दिए जाएंगे। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणामों को कंपनी के पंजीकृत और कार्पीरेट कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेंड को सचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.varunbeverages.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किए जाएंगे।

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए, कृप्या www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा एनएसडीएल के न. 022 4886 7000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर सुश्री पल्लवी म्हात्रै, प्रबंधक, एनएसडीएल, . चतुर्थ तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई–400013, को अनुरोध करें अथवा अनुपालन अधिकारी को ई-मेलः complianceofficer@rjcorp.in पर मेल करें।

> के लिए और की तरफ से वरुण बेवरेजेज लिमिटेड हस्ता. /-रवि बत्रा

मुख्य जोखिम अधिकारी एवं समूह कंपनी सचिव

दिनांकः जुलाई 31, 2024 स्थानः गुरुग्राम